



शेयर मंथन

नारदवाणी की दैनिक प्रस्तुति

अभी डर, डर के आगे
उम्मीद, उसके बाद...



जब नीतिगत शयनगृह से बाहर निकल कर सरकार ने दनादन साहस भरे फैसले सुनाये तो बाजार के मन में एक साथ कई लड़्डू फूटे थे। लेकिन उससे पहले ही 13 सितंबर की सुबह मैंने राजनीतिक अनिश्चितता के बारे में आगाह किया था। तब मैंने लिखा था कि "हमारे सामने राजनीतिक अनिश्चितता अब कई रूपों में है। पहली अनिश्चितता यह कि मौजूदा यूपीए-2 सरकार की उम्र कितनी बाकी बची है। क्या यह सरकार शीतकालीन सत्र भी निकाल पायेगी या उसके बाद बजट पारित करा पायेगी?"

इस हफ्ते सोमवार की सुबह भी मैंने लिखा था कि "कब अचानक कोई राजनीतिक खबर बाजार को बड़ा झटका दे जाये, इसका पहले से अंदाजा लगाना मुश्किल रहेगा।" हालाँकि सोमवार को बाजार में ज्यादातर जानकार राजनीतिक जोखिम की बात को तवज्जो नहीं देना चाह रहे थे। शायद इसका कारण यही था कि अरसे बाद बाजार में जो नयी चाल बनती दिख रही थी, उसे वे आशंकाओं के बादल में घिरता देखने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। मानसिक तैयारी तो शायद कांग्रेस की भी नहीं थी। उसके रणनीतिकारों ने शायद सोचा होगा कि ममता बनर्जी फिर से कुछ तेवर दिखा कर शांत पड़ जायेगी। फिर बात छिड़ी कि शायद अपने मंत्रियों को वापस बुला लेंगी। लेकिन समर्थन वापसी और यूपीए से हट जाने का ऐलान शायद उनके आकलन से कहीं ज्यादा कड़ा और बड़ा कदम रहा।

खैर, अभी परसों भी तृणमूल कांग्रेस के फैसले पहले ही मैंने जिक्र किया था कि दीदी का भरोसा नहीं तो क्या हो गया, दुनिया में बस वही हैं क्या सरकार बनाने-बचाने-गिराने के लिए! अभी तो लग रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर मुलायम सिंह और मायावती दोनों को एक साथ अपने खेमे में रख पाने की कलाबाजी दिखा सकेगी। जब तक आपकी यह कलाबाजी चलेगी, तब तक बाजार में तेजी का खेल चलेगा। मगर ध्यान रखें कि मुलायम सिंह इस समय भारतीय राजनीति के सबसे अनिश्चित व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने हैं। उनकी कलाबाजियों के सामने ममता बनर्जी की तुलनामिताजी पासंग भर भी नहीं है।

लिहाजा सोमवार की ही लिखी अपनी यह बात दोहराऊँगा कि "आने वाले महीनों में भारतीय बाजार के लिए सबसे बड़ा जोखिम राजनीतिक अनिश्चितता का होगा। हो सकता है कि अभी यूपीए के सहयोगी दल या बाहर से समर्थन दे रहे दल तुरंत सरकार गिराने की हद तक न जायें। लेकिन यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, इसकी संभावना कम होती जा रही है।"

(पूरा पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - <http://www.sharemanthan.in/index.php/rag-bazaari/19792-rajeev-ranjan-jha-column-20120920>)

राजीव रंजन झा

	18/09	17/09	बदलाव	% बदलाव	पी/ई
सैंसेक्स	18,496	18,542	-46	-0.25%	17.31
निफ्टी	5,600	5,610	-10	-0.18%	18.81
सीएनएक्स मिडकैप	7,563	7,465	+98	+1.32%	20.09
बीएसई मिडकैप	6,372	6,316	+56	+0.88%	21.65
बीएसई स्मॉलकैप	6,747	6,698	+49	+0.73%	23.42
	19/09	18/09	बदलाव	% बदलाव	
डॉव जॉस	13,578	13,565	+13	+0.10%	
नैस्डैक कंपोजिट	3,183	3,178	+05	+0.15%	
एफटीएसई	5,888	5,868	+20	+0.35%	
डैक्स	7,391	7,348	+43	+0.59%	
कैक 40	3,532	3,513	+19	+0.54%	

एशियाई बाजारों में गिरावट, सिंगापुर निफ्टी 5600 के नीचे

एशियाई शेयर बाजारों में आज सुबह गिरावट का रुख है। वहीं सिंगापुर निफ्टी 5600 के स्तर के नीचे फिसल गया है। इससे पहले कल अमेरिकी शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ।

बुधवार को अमेरिकी शेयर बाजार में हल्की मजबूती रही। बैंक ऑफ जापान के स्टिमुलस की खबरों से बाजार को बल मिला। दरअसल, बैंक ऑफ जापान ने बॉन्ड खरीद सीमा को बढ़ाकर 80 लाख करोड़ येन कर देने का ऐलान किया है। वहीं, अगस्त महीने में घरों की बिक्री में अप्रत्याशित बढ़ोतरी से भी बाजार को फायदा हुआ। कारोबार के अंत में डॉव जॉस इंडस्ट्रियल एवरेज 13 अंक यानी 0.10% की बढ़त के साथ 13,578 पर रहा। नैस्डैक कंपोजिट 5 अंक यानी 0.15% की हल्की बढ़त के साथ 3183 पर और एसएंडपी 500 सूचकांक 2 अंक यानी 0.12% की मामूली बढ़त के साथ 1461 पर रहा।

आज सुबह हेंग सेंग में 0.47% की गिरावट है। ताइवान के ताइवान वेटेड में 0.43% की कमजोरी है। इंडोनेशिया के जकार्ता कंपोजिट में 0.56% की गिरावट है। स्ट्रेट टाइम्स 0.28% नीचे है। शंघाई कंपोजिट में 1.18% की गिरावट है। कॉस्पी में 0.56% की कमजोरी है। जापान के निक्केई में 0.70% की गिरावट है।

सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सिंगापुर निफ्टी मंगलवार को निफ्टी के बंद स्तर के मुकाबले 43 अंक की गिरावट के साथ 5557 पर है।

अभी निफ्टी का दायरा रहेगा 5500-5630

सलिल शर्मा, पार्टनर, कपूर शर्मा.कॉम



भारतीय शेयर बाजार में आज के कारोबार के अंत में स्थिति कुछ संभल सकती है। अभी मुझे निफ्टी का दायरा 5500-5630 के बीच नजर आ रहा है। निफ्टी को 5530 पर समर्थन मिल रहा है। अगर बाजार इससे भी कमजोर होता है तो निफ्टी को 5495 पर मजबूत समर्थन मिलेगा। निफ्टी को 5630 के स्तर पर बाधा मिल रही है।

मेरा मानना है कि बाजार को अभी सरकार खतरे में नहीं दिख रही है, जब तक कि सपा और बसपा का समर्थन सरकार को जारी है। बाजार को सोमवार तक राजनीतिक दृष्टि से स्पष्ट संकेत मिल सकते हैं। इस परिस्थिति को देखते हुए अभी बाजार को नकारात्मक संकेत मिलने की संभावना कम ही है।

क्षेत्रों के लिहाज से आईटी, सीमेंट और बैंक अच्छे नजर आ रहे हैं। निवेशकों को मेरी सलाह है कि मध्यम और लंबी अवधि के नजरिये के हिसाब से वे इन क्षेत्रों की कंपनियों के शेयरों में किस्तों में अपना नया निवेश करें।

तकनीकी सलाह



सैंसेक्स 18,496 (-46)

	समर्थन 2	समर्थन 1	बाधा 1	बाधा 2
ईस्टर्न फाइनेंशियर्स	18235	18315	18560	18670
एंजेल ब्रोकिंग	18404	18450	18561	18626



निफ्टी 5,600 (-10)

	समर्थन 2	समर्थन 1	बाधा 1	बाधा 2
ईस्टर्न फाइनेंशियर्स	5526	5550	5620	5652
एंजेल ब्रोकिंग	5568	5584	5618	5636



ईस्टर्न फाइनेंशियर्स
छोटी अवधि के सौदों के लिए

शेयर	भाव	सलाह	घाटा	कार्टे	लक्ष्य
रिलायंस	855.60	बेचें	863		844
आईसीआईसीआई बैंक	1049.05	बेचें	1057		1035
टीसीएस	1300.40	बेचें	1320		1277

(हमने यह सलाह अपने ग्राहकों को दे रखी है और इन शेयरों में ग्राहकों के सौदे हो सकते हैं: ईस्टर्न फाइनेंशियर्स)



सलिल शर्मा

कपूर शर्मा.कॉम

1-3 दिनों की अवधि के सौदों के लिए

शेयर	भाव	सलाह	घाटा	कार्टे	लक्ष्य
वोल्टास	119.50	खरीदें	116		124
भारती एयरटेल	272.30	खरीदें	267		279

(मैंने यह सलाह अपने ग्राहकों को दे रखी है और इन शेयरों में ग्राहकों के सौदे हो सकते हैं: सलिल)



DYNAMIX
"Creating Wealth"

डायनामिक्स रिसर्च

छोटी अवधि के सौदों के लिए

शेयर	प्रवेश	भाव	सलाह	घाटा	कार्टे	लक्ष्य
जेपी एसोसिएट्स	79.25	खरीदें	<76.75			82, 85
टीवीएस मोटर	41	खरीदें	<39			44.50

(हमने यह सलाह अपने ग्राहकों को दे रखी है और इन शेयरों में ग्राहकों के सौदे हो सकते हैं: डायनामिक्स रिसर्च)

क्या आप हैं एक रिलेशनशिप मैनेजर/डीलर? तो आपके लिए है हमारे पास एक विशेष योजना! संपर्क करें:

rm@sharemanthan.com

ब्रोकर-सलाह

कंपनी	सलाह / रेटिंग	मौजूदा भाव	लक्ष्य भाव (12 माह)	रिपोर्ट तिथि	रिपोर्ट तिथि का भाव	उच्चतम (52 हफ्ते)	न्यूनतम (52 हफ्ते)	ब्रोकिंग फर्म
आईसीआईसीआई बैंक	जमा करें	1048.90	1102	18 सितंबर	1048.90	1068.70	641.00	केआर चोकसी सि.
एचटी मीडिया	खरीदें	91.80	109	17 सितंबर	89.30	156.50	82.00	केआर चोकसी सि.
पेंटालून रिटेल	खरीदें	180.00	248	17 सितंबर	187.60	260.50	125.30	आईसीआईसीआई
एम्फैसिस	जमा करें	378.50	418	14 सितंबर	387.35	439.00	277.00	केआर चोकसी सि.
सिटी यूनिन बैंक	खरीदें	51.95	69	14 सितंबर	51.00	55.35	39.15	ईस्टर्न फाइनेंशियर्स
हीरो मोटोकॉर्प	खरीदें	1924.55	2428	13 सितंबर	1819.10	2278.50	1702.65	एंजेल ब्रोकिंग
पटेल इंजीनियरिंग	खरीदें	72.80	75	13 सितंबर	63.25	127.15	62.75	केआर चोकसी सि.
स्टरलाइट इंडस्ट्रीज	रखें	101.90	92	12 सितंबर	95.25	138.40	86.10	आईसीआईसीआई
लार्सन एंड टुब्रो	जमा करें	1551.65	1568	12 सितंबर	1408.50	1600.20	971.00	एंजेल ब्रोकिंग
सेसा गोवा	रखें	175.85	153	12 सितंबर	162.65	270.00	148.70	आईसीआईसीआई
ज्योति स्ट्रक्चर्स	खरीदें	40.35	50	12 सितंबर	38.00	72.40	35.05	केआर चोकसी सि.
टाटा मोटर्स	खरीदें	274.05	292	11 सितंबर	249.60	320.60	142.50	एंजेल ब्रोकिंग
डिश टीवी	खरीदें	78.75	82	11 सितंबर	71.45	83.75	52.00	केआर चोकसी सि.
हिंदुस्तान डोर	रखें	25.50	22	11 सितंबर	22.95	56.50	21.85	आईसीआईसीआई
गुजरात पिपावाव पोर्ट	खरीदें	50.30	57	08 सितंबर	48.85	74.50	48.00	केआर चोकसी सि.
जैन इरिगेशन	खरीदें	66.30	100	06 सितंबर	61.10	171.65	59.50	केआर चोकसी सि.
टेक महिंद्रा	खरीदें	901.05	940	05 सितंबर	831.55	932.85	524.20	आईसीआईसीआई
डीबी कॉर्प	खरीदें	192.15	230	05 सितंबर	198.80	243.45	170.00	केआर चोकसी सि.
एसबीआई	खरीदें	2150.65	2270	05 सितंबर	1831.70	2474.80	1576.00	एंजेल ब्रोकिंग
कैर्न इंडिया	जमा करें	350.10	380	04 सितंबर	340.05	400.95	258.45	केआर चोकसी सि.
इन्फोसिस	जमा करें	2599.65	2530	03 सितंबर	2369.55	2990.00	2101.65	एंजेल ब्रोकिंग
केईसी इंटरनेशनल	खरीदें	61.10	72	03 सितंबर	56.35	68.70	31.80	केआर चोकसी सि.



शेयर मंथन

अब आपके मोबाइल पर भी
पूरी पत्रिका समायी एसएमएस पैक में

जानकारों की राय

विश्व बाजारों का हाल

तकनीकी सलाह

ब्रोकर रिपोर्ट

सब कुछ सुबह-सुबह आपके मोबाइल पर

वार्षिक शुल्क: 2,400 रु.

छमाही शुल्क: 1,500 रु.

ग्राहक बनने के लिए ईमेल करें

mobile@sharemanthan.com पर

स्पष्टीकरण: विशेषज्ञों की सलाह आपकी मदद के लिए है। इसे शेयर मंथन या नारदवाणी की सलाह नहीं समझें और जरूरी नहीं है कि उस सलाह से शेयर मंथन या नारदवाणी सहमत हो। संबंधित शेयरों में विशेषज्ञों के अपने या उनके ग्राहकों के हित जुड़े हो सकते हैं। निवेश संबंधी किसी भी फैसले से पहले अपनी खोजबीन जरूर करें।

Disclaimer: This document, which is prepared by NaradVani Sanchar Madhyam Pvt. Ltd., does not constitute an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument or as an official confirmation of any transaction. NaradVani or any of its affiliates shall not be in any way responsible for any loss or damage that may arise to any person from any inadvertent error in the information contained in this report. This document is provided for assistance only and is not intended to be and must not alone be taken as the basis for an investment decision. The user assumes the entire risk of any use made of this information. This information is strictly confidential and is being furnished to you solely for your information. This report is not directed or intended for distribution to, or use by, any person or entity who is a citizen or resident of or located in any locality, state, country or other jurisdiction, where such distribution, publication, availability or use would be contrary to law, regulation or which would subject NaradVani and affiliates to any registration or licensing requirements within such jurisdiction. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law, and persons in whose possession this document comes, should inform themselves about and observe, any such restrictions.

Neither NaradVani nor any of its affiliates, directors, employees, agents or representatives shall be liable for any damages whether direct, indirect, special or consequential including lost revenue or lost profits that may arise from or in connection with the use of the information.

© All rights reserved by NaradVani Sanchar Madhyam Pvt. Ltd. This information should not be reproduced or redistributed or passed on directly or indirectly in any form to any other person or published, copied, in whole or in part, for any purpose without a written permission by NaradVani.